

**सामान्य विज्ञान**

**जीव विज्ञान**

**क्रेशा कोर्स**

**अति महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ**

**हस्तलिखित : निःशुल्क कोर्स**

**RAJASTHAN CLASSES**

**See more pdf- <https://rajasthanclasses.in/>**

Scanned with CamScanner

## विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य

- जीव विज्ञान शास्त्र का प्रयोग -  
सर्वप्रथम लैमार्क (फ्राँस) व ट्रैविरेनस (जर्मनी)  
नामक वैज्ञानिकों ने 1801 में किया।
- जीव विज्ञान का जनक - अरस्ट्रुन्ड  
→ अन्तु विज्ञान का जनक - अरस्ट्रुन्ड  
जीव विज्ञान का विकास इन्हीं वैज्ञानिकों के काल में हुआ
- आधुनिक वर्गीकरण का पिता → लीनियस
- जीवशास्त्रियों का पाच - जगत वर्गीकरण, वृहीटकरद्धारा ↓  
① मोनोरा ② प्रोटोटिस्टा ③ पादप ④ कवक  
⑤ पृष्ठु - मेटोजीआ भी कहते हैं।
- जीवज्ञान का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन् 1839 में किया गया।
- जीवज्ञान के 2 भाग → ① कोशिका द्वय ② केन्द्रकद्वय
- जीवज्ञान का लगभग 80% भाग जल होता है।
- इसमें कार्बनिक व अकार्बनिक थोगिको का अनुपात 81:19

- कोशिका अध्ययन को "GytoLOGY" कहते हैं।
- (न्टो)नवान लिवेनहॉक ने कोशिका को पहली बार देखा।
- कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्जेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया।
- सबसे छोटी कोशिका जीवाणु "माइक्रोप्लाज्म ऑलिसेटिकम" की है।
- सबसे लम्बी कोशिका तांगिका-तंग की कोशिका है।
- सबसे बड़ी कोशिका - शुद्धरमुर्ग के अंडे की कोशिका
- सबसे पहले कोशिका सिद्धान्त का प्रतिपादन - 1838-39  
~~इसे मैथियल स्लाइडेन व थियोडर स्बान ने किया।~~
- पहली बार रडोल्फ विर्चो (1855) ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित भी होती है।
- कोशिका के दो प्रकार - ① प्राकृतिक ② यूकृतिक

→ DNA की डिकूंडलित संरचना मॉडल का प्रतिपादन - जो.डी. वाट्सन व किंकने - 1953 में सन् 1962 में इन्हे नोबेल पुरस्कार से मिला।

→ प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संरचना हर्गोविन्द चतुराणी ने किया।

→ DNA से RNA का संरचना होता है!

→ RNA के तीन प्रकार - r-RNA, t-RNA, m-RNA

→ प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है!

→ कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में विस्ट्याइ ने देखा।

→ सुमित्रा विभाजन प्रक्रिया को सर्वप्रथम वाल्थेर पलोमिंग ने 1879 में देखा।  
इस प्रक्रिया को मोइटोसिस नाम दिया।

→ अहुसुजी विभाजन की खोज सर्वप्रथम - वीजमैन ने सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने 1888 में।

- आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जोनकारी आस्ट्रिड्रा के उग्र जौन मेडल ने 1822-84 ने दी
- अनुवांशिकता का पिता - उग्र जौन मेडल
- अनुवांशिकता शास्त्र - विलियम वाटसन ने दिया
- जीन शास्त्र - विलहेल्म जोहान्सन ने दिया
- मेडल ने प्रयोग हुए मटर पाँच का चुनाव दिया।
- मेडल के तीन नियम
  - ① प्रभाविकण का नियम
  - ② पुथकरण व
  - ③ स्वतंत्र अपन्नन
- गुणसूत्र का नामकरण - डल्यू वाल्टेर ने 1888ई.
- जीनोम → गुणसूत्रों में पाये जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं!
- मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 56 होती है।  
एस्क्रिप्ट में सबसे कम - 2 गुणसूत्र  
ट्रैरिंडोफाइट्स में सबसिधि - 1300-1600 गुणसूत्र
- ऑर्थर कोनिंग ने 1962 में डी एन ए पॉलीग्रेज नामक एन्जाइम की खोज की।

- कवक अध्ययन को "Mycology" कहा जाता है।  
→ एप्सा नामकु विष कवक से बनते हैं।
- लाइकेन - कवक व शौकालो से मिलकर बनती है।  
→ लाइकेन का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक-प्रियोफ्रेस्टस ने किया।  
→ लाइकेन का अध्ययन - लाइकेनोलॉजी कहलाता है।
- जीवाणु - खोज - 1683ई.में, एन्टोनीवान ल्यूबेनहैक  
→ जीवाणु विसान का पिता - ल्यूबेनहैक
- जीवाणु नाम → एडरेनबर्ग ने 1829ई.में दिया  
→ 1812-1892ई. को लुई पारचर ने  
इवीज का टीका न दिये के पाश्चुराहीजेशन की खोज।
- विधाण - खोज - इवान विस्की (रूस) - 1892में  
→ पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र शब्द का प्रयोग  
सर्वप्रथम टेल्ले ने दिया - Ecosystem नाम
- हेरोइन अफीम पोस्टा से प्राप्त की जाती है।  
→ लौंग, कुल की कली से प्राप्त होती है।  
→ कुनैन-सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त होता है।  
→ विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला जल-पादप - हायासिंधु

- पादप हार्मोन्स →
- ऑक्सित्रॉक्स की खोज 1880 में डार्विन ने की।
- जिवरेलिस - जापानी कुरोसावा ने 1926 में की।
- साइटोकाइनिन - खोज - 1955 - मिलर ने।
- एबासिसिक्यु एसिड - खोज - 1961-65 → कानूनिक एडिक्ट्रेशन
- एथिलीन - खोज - बर्ग - 1962
  
- पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक
- ① जैविक घटक ② अजैविक घटक
  
- पारिस्थितिकी विज्ञान के दो बोगलुरु में हैं
  
- जैविक घटक → ① अत्याधिक ② उपभोक्ता ③ अपधारक
- अजैविक घटक → ① कार्बनिक पदार्थ ② अकार्बनिक ③ जलवायीय
  
- खाद्य - ज़मीन पर मानव प्राथमिक रूप से हितीयक उपभोक्ता है।
  
- प्रदूषण मुख्यतः ④. ५ प्रकार के हैं।
- ① वायु प्रदूषण ② जल प्रदूषण ③ ध्वनि प्रदूषण
- ④ भूदा प्रदूषण ⑤ नामिकीय प्रदूषण।

## पर्यावरण संस्थान

- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड → नई दिल्ली
- केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण - नई दिल्ली
- जी.बी.पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान
  - अल्मोड़ा - उत्तराखण्ड
- भारतीय बन अनुसंधान एवं शक्ति परिषद्
  - देहरादून - उत्तराखण्ड
- भारतीय बन प्रबंधन संस्थान → झोपाल - MP
- बन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान
  - कोयम्बटूर - तमில்நாடு
- बन उत्पादकता केन्द्र → रांची (झारखण्ड)
- राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिकी संस्थान - फरीदाबाद (हरियाणा)
- भारतीय बनस्पति सर्वेक्षण - कोलकाता (प.क.)
- भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण - कोलकाता प.ब.
- आफरी व कोजरा संस्थान - जोधपुर (राज.)

- विश्व पर्यावरण दिवस ५ जून को मनाया जाता।
- प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस १९७३ में मनाया गया।

\* जीव विज्ञान के अध्ययन व शाखाएं

- एपीकल्चर - मधुमक्खी पालन का अध्ययन
- सेरीकल्चर - रेशम कीट पालन का अध्ययन
- पीसीकल्चर - मत्स्य पालन का अध्ययन

- भाइकोलॉजी - बीवों का अध्ययन
- फोइकोलॉजी - शौवालों का अध्ययन
- एन्थोलॉजी - पुल्पी का अध्ययन
- पौधोलॉजी → फलों का अध्ययन

- आनिथोलॉजी → पालियो का अध्ययन
- इन्ट्रोलॉजी - मछलियों का अध्ययन
- एटोमोलॉजी - कीटों का अध्ययन
- डैन्ड्रोलॉजी → बुद्धों व झाड़ियों का अध्ययन
- ओफियोलॉजी - सर्पों का अध्ययन
- साँरोलॉजी → हिपोकलियो का अध्ययन
- सिल्विकल्चर → काढ़ी पेड़ों का संवर्धन
- हॉटिकल्चर - उदान विज्ञान
- फ्लोरिकल्चर → फुलों की खोती।

- मानव रक्त ←
- मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग 7% होती है।

- रक्त एक क्षारीय विलयन है। प्रमाण 704 होता है।
- वयस्क मनुष्य में औसतन् 5-6 लीटर रक्त होता है।

- रक्त के दो प्रकार ① लाला ② स्थिराणु

- ओजन को मुख में लेना अनुप्रयोग कहलाता है।
- उनमासाय में शोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है।

- ओजन के आमाशय में पहुँचने पर पाइलोरिक ग्रन्धियों से जंदर रस निकलता है -

- प्रकृत- मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रन्धि है।  
प्रकृत का वजन 1.5 से 2 kg तक होता है।

- पिल का पक्वाशय में गिरना, प्रतिवर्ती क्रिया होता है।
- पिल का प्रमाण - 707 होता है।
- अउनाशय दुसरी बड़ी ग्रन्धि - प्रमाण - 705 से 803

- इन्द्रिय- की ओज - प्रोडरिक बैंटिंग व चालस वॉटर ने 1921 में पहला इन्द्रिय-इनोवेशन - 1922 में केनाड के लियानड शामसन को दिया।

- शारीर में उल्लंघन की मात्रा बढ़ना  
मधुमेह कहलात है।
- रक्त परिसंचरण की खोज - 1628ई.पे.  
विलयम हार्वे ने
- शारीर का सबसे व्यस्त अंग - हृदय,  
कुल भार - 300 ग्राम तक।
- मनुष्य का तंत्रिका तंत्र तीन भागों में विभक्त -
  - ① क्रौर्द्धीय तंत्रिका तंत्र
  - ② परिष्ठीय तंत्रिका तंत्र
  - ③ स्वायत्र या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र
- मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता।
- ~~दृष्टि, शब्द, तंथा गरम और पहचानने का~~  
कार्य → थोलमस करता है!
- सांस छारा लगभग 500 ml पानी प्रतिदिन  
आनन्द शारीर से बाहर निकलता है।
- क्रेहस चक्र की खोज हैंस क्रेब ने मन् 1937  
ई.पे. किया।

प्रोटीन - सर्वप्रथम इस शब्द का उदय -

जै. बर्नेलियस ने किया।

मानव का शरीर लगभग 15% प्रोटीन से निर्भित है।

→ बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्षाणियोर्कर ऐन मराहमस नामक रोग हो जाता है।

→ वसा

→ यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है।

→ विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है।

→ 1 ग्राम वसा से 9.30 kg उलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है।

→ विटामिन - अविटामिन फैक्टर ने 1911 में किया।

→ कार्बोनिक यौगिक, कैलोरी प्राप्त नहीं होती।

→ विटामिन B<sub>12</sub> में कोलाइ वाचा जाता है।

→ विटामिन - A नेत्र, त्वचा, हड्डी व शरीर की उत्तिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है।

विटामिन की कमी से होने वाला  
रोग एवं उसके स्रोत

विटामिन	शास्त्रीयनिक नाम	कमी से होने वाले रोग
A	रेटिनोल	रत्तोंधी, जीरोप्टोलमिया
B	थायमिन	बेरी - बैरी
B <sub>2</sub>	राइबोफ्लोविन	खन्दाव जिवा का फटना
B <sub>3</sub>	नियासिन	पेलाग्या, दाढ़, सिङ्गोम्
B <sub>5</sub>	पैन्टोथेनिक अम्ल	बाल सफुद व मदहुआ ह
B <sub>6</sub>	पाइरीडाक्सिन	एनीमिया व खन्दाव रोग
<del>B<sub>8</sub></del>	<del>एक्टीनोक्लिन</del>	
B <sub>7</sub>	बायोटीन	लकवा, बालों का गिरना
B <sub>11</sub>	फॉलिकुल अम्ल	एनीमिया, पैचिश रोग
B <sub>12</sub>	सार्वोकाशालामिन	एनीमिया, थांडु रोग
विटामिन-C	एस्काबिक एसिड	खबी, मसूदे का फूलना
D	कॉलसिफ्टोरॉल	रिकेटम, झोटियोमलसिया
E	टोकोफोरोल	जनन शक्ति को कम होना
K	फिलोक्विनोन	रक्त का धक्का ने बनना

Trick - अगले पेज में →

→ विटामिन B और C जल में धुलनशील हैं।

→ A, D, E, K जल में धुलनशील हैं।

→ विटामिन ऊतकों में एन्जाइम का निर्माण करते हैं।

## Trick - Best Power of Tricks

रासायनिक नाम → रथ पर एक ट्रॉफी  
रोग नाम - हाय रबा सरीन के खुन आ गया

विटामिन	रासायनिक नाम	रोग नाम
A र-	रेटिनोल	र- रत्नवी
B थ-	थायमिन	बा- बेरी बेरी
C ई-	एस्कोर्बिक अम्ल	स- स्कवी
D की-	कोलिसिफिरोल	की- रिकेट्स
E टो	टोकोफेरोल	न- नपुस्कल
R फि-	फिलोक्विनोन	खुन → खुन का धब्बा

## - मानव रोग -

### प्रोटोजोआ से होने वाला रोग

रोग -	प्रभावित अंग	वाहक महसूस
मलेरिया -	तिल्ली व RBC -	मादृ एनाफिलीज
पायरिया -	मसुड़ों	
सौने की बीमारी -	मस्तिष्क	सी-सी-एक्सी
पांचल	आंत	
कालाजार	आर्थि-मज्जा	वात मवरी

### जीवाणु जनित रोग Bacteriosis

बीमारी	जीवाणु नाम	जीवाणु अवृत्ति
टिटनेस हैंजा	ब्लॉस्ट्रीडियम	तविका तंत्र
टायफूड	सालमानला टाइफी	आंत
क्षय रोग	माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबक्युलोसिस	फैफड़ा
डिएचीरिया	कोरीनी बैक्टीरियम डिएचीरी	श्वासनली
फ्लेग	पाश्चात्यरला पैरिटिल	फैफड़ा
काली खाली	दीमोफिलस परदालिस	श्वसन तंत्र
निमोनिया	डिप्लोकोक्स न्यूमोनी	फैफड़ा
कोट्ट	माझकोबैक्टीरियम लोम्पी	त्वचा
जानोरिया	नाइटोरिया जोनोरियाई	भूत मार्ग
सिफलिस	टूपोनमा फैलिटम	शिशून

→ मुलेरिया शॉल्ड का सर्वप्रथम प्रयोग 1827 ई. में  
मेक्सिकोलाच ने किया।

→ प्रतीक्षी प्लाज्मोडियम की खोज - लेवरन (1880)

### \* विषाणु \* जनित रोग

<del>विषाणु</del>	प्रभावित अंग	विषाणु का नाम
① एडीस	प्रतिरक्षा प्रणाली	HIV

AIDS - Acquired Immuno deficiency Syndrome

② डेंगू फ्लेर	- सम्पूर्ण शरीर दर्द	- अखो वायरस
③ पोलियो	- गल्फ़, शीढ़, नाइ	- पोलियो
- इनफ्ल्यूएन्ज	- सम्पूर्ण शरीर	- मिक्रोवायरस
- चैचकु	- सम्पूर्ण शरीर	- वैरिओला वायरस
→ हाथी माता		
→ खसरा	सम्पूर्ण शरीर	मोर्बली वायरस
→ रेनीज	तंत्रिका तंत्र	ऐडो वायरस
→ हाँस	त्वचा	हाँस

→ जिका बुखार - जिका वायरस के कारण होता है।

- मनुष्यों में होने वाला आनुवंशिक रोग
- बानिधान, हीमोफीलिया, ट्वर-सिंड्रोम
  - किलोफैलटर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम
  - पराम, सिंड्रोम

### प्रमुख केन्द्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम

राष्ट्रीय आयोडीन अल्पल विकार नियंत्रण प्राय - 1962

राष्ट्रीय दुष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976

राष्ट्रीय कैसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975-76

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम - 1982

राष्ट्रीय रहस्य नियंत्रण कार्यक्रम - 1992

राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम - 1997

प्राचनन् एव बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम - 1997

पलस पोलियो कार्यक्रम - 1997

समाजिक रोग नियंत्रण परियोजना - 1997

जननी सुरक्षा योजना -

2003

बन्दे मात्रम् योजना -

2004

→ पोलियो वैक्सीन का विकास - 1952-जोनक सालॉक

- सबसे बड़ा जीवित पक्षी - शुद्धरमुर्ग
- सबसे बड़ा कृषि - गोरिल्ला
- सबसे छोटा हतनी - छह्युदर
- अंडे जरायुज स्तनी - कंगारू
- सबसे व्यर्णन मानव आंग - हृदय
- सबसे बड़ा जीवित सरीसूप - टर्टल (कंछुआ)
- सबसे तेज़ उड़ने वाला पक्षी - कर्टिपुंज पक्षी
- सबसे तोज़ दौड़ने वाला जंतु - चक्रवर्ती
- सबसे बड़ा लंफि - पाइथन
- सबसे छोटा पक्षी - हंसिय पक्षी
- सबसे बड़ा अंडा - शुद्धरमुर्ग
- सबसे ऊँचा तंतनी - रजराफ़ (अफ्रीका)
- सबसे बड़ा व भारी हतनी - नीली हैँल
- सबसे बड़ा द्व्याली स्तनी - अफ्रीकी लाघु
- अंडप्रजन स्तनी - एकिडना व ड्रूविल्स्टेटीपस
- सबसे बड़ा समुद्री पक्षी - रल्बाहाय (पंख-10-12 फीट)
- सबसे तेज़ त्रिभुज आवेग 532 किमी/घण्टे होती।
- मुख्य फैफड़े का आंतरिक शंगफल - ७३ वर्गमीटर
- शारीर के बाह्य लेंगफल का ५० गुना होता है।
- शुद्ध का भार लगभग १५० शाम होता है।
- छोटी आंत मीटर लम्बी, व्यास - २.५ cm होता है।
- साल के दौरान ८०० मिली. हवा अंदर जाती है।
- नख, खुर, और सींग किरणिन उत्तर के बने होते हैं।